



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख 1940 (श0)
(सं0 पटना 448) पटना, शुक्रवार, 18 मई 2018

सं० पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018-1063
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

17 मई 2018

विषय:— “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना” के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रु0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति।

वर्तमान में छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कौट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

2. राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना” के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रु0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी जाती है।

4. इस योजना के लिए व्यय राज्य स्कीम के मांग सं0-11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत आय-व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और

अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0101-शिक्षा, विपत्र कोड-11-2225032770101, विषय शीर्ष-34-छात्रवृत्ति/वजीफा(0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 448-571+1500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>